

प्रेस नोट दिनांक 29.12.2020

**इटावा पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को अवैध असलहा सहित किया गिरफ्तार ।
अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन
में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा व क्षेत्राधिकारी
सैफई के नेतृत्व में थाना चौबिया पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व 02
जिंदा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 29.12.20 को थाना चौबिया पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना चौबिया क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी, इसी क्रम में पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि मु0अ0सं0 250/20 धारा 147,148,149, 323,504,506,307 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त अपने घर ग्राम हिद्दपुरा से कंही भागने की फिराक में खडा है । पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए ग्राम हिद्दपुरा अभियुक्त के घर पर पहुंचा गया तो पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्ति द्वारा भागने का प्रयास किया गया जिसको पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए घेरकर पकड लिया गया ।

पकडे गये अभियुक्त की तलाशी ली गयी तो उसके पास से 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुये पुलिस द्वारा तमंचा के प्रपत्र मांगे गये तो वह प्रपत्र दिखाने में असमर्थ रहा । पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह थाना चौबिया पर मु0अ0सं025/20 में वांछित अभियुक्त है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 274/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अभयराम पुत्र सुखवासीलाल निवासी ग्राम हिद्दपुरा थाना चौबिया ।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 कारतूस जिंदा 02 व बोर 315 बोर ।

पुलिस टीम

1. श्री राजीव यादव थानाध्यक्ष थाना चौबिया जनपद इटावा मय टीम ।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा**